

ऑनस्क्रीन मदद का अद्यतन करें

Philips लगातार अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी ऑन-स्क्रीन मदद नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतित है, अपने होम थियेटर को नवीनतम ऑन-स्क्रीन मदद से अद्यतन करें।

<http://www.philips.com/support> से नवीनतम मदद डाउनलोड करें।

आपको किसकी आवश्यकता है

- कम से कम 35MB मेमोरी के साथ एक USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव को FAT या NTFS स्वरूपित होना आवश्यक है। किसी USB हार्ड ड्राइव का उपयोग न करें।
- इंटरनेट पहुँच के साथ एक कंप्यूटर।
- एक संग्रहित सुविधा जो ZIP फाइल स्वरूप को समर्थित करती है (उदाहरण के लिए, Microsoft® Windows® के लिए WinZip® या Macintosh® के लिए Stuffit®)।

चरण 1: मदद के वर्तमान संस्करण की जाँच करें

अपने होम थियेटर में स्थापित ऑनस्क्रीन मदद के वर्तमान संस्करण की जाँच करें। यदि संस्करण <http://www.philips.com/support> पर उपलब्ध संस्करण से निम्न है, तो नवीनतम ऑनस्क्रीन मदद डाउनलोड और स्थापित करें।

अंतिम दो अंक, आपके होम थियेटर में स्थापित ऑनस्क्रीन मदद के संस्करण को इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि होम थियेटर में 'Subsystem SW: 35-00-00-05' संस्करण है, तो '05' वर्तमान में स्थापित मदद के संस्करण को प्रस्तुत करता है।

- 1 (होम) दबाएँ।
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ।
- 3 [उन्नत] > [संस्करण जानकारी] का चयन करें, फिर OK दबाएँ।

चरण 2: नवीनतम ऑनस्क्रीन मदद डाउनलोड करें

- 1 अपने कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें।
- 2 अपने वेब ब्राउज़र में, www.philips.com/support पर जाएँ।
- 3 Philips समर्थन वेबसाइट पर अपना उत्पाद ढूँढ़ें और उपयोगकर्ता मैनुअल पर क्लिक करें और फिर उपयोगकर्ता मैनुअल नवीनीकरण सॉफ्टवेयर का पता लगाएँ।
↳ मदद अद्यतन जिप फाइल के रूप में उपलब्ध है।
- 4 अपने USB फ्लैश ड्राइव की स्ट निर्देशिका में जिप फाइल सहेजें।
- 5 USB फ्लैश ड्राइव के स्ट निर्देशिका में मदद अद्यतन फाइल को निकालने के लिए संग्रहित सुविधा का उपयोग करें।
↳ 'xxxx' आपके होम थियेटर का मॉडल नंबर होते हुए, 'HTSxxxxeDFU.zip' नामक फाइल आपके USB फ्लैश ड्राइव के UPG_ALL फोल्डर से निकाली जाती है।
- 6 अपने कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें।

चरण 3: ऑन-स्क्रीन मदद अद्यतन करें

! सावधानी

- इससे पहले कि आप अपने होम थियेटर को USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि डिस्क कक्ष में कोई डिस्क है, और डिस्क कक्ष बंद है।

- 1 TV चालू करें।
- 2 डाउनलोड की गई फाइल शामिल करते हुए, होम थियेटर पर USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करें।
- 3 (होम) दबाएँ।
- 4 रिमोट कंट्रोल पर '338' दर्ज करें।
↳ अद्यतन की पुष्टि के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें। अद्यतन के दौरान होम थियेटर को बंद न करें या USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें।
- 5 होम थियेटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें।

! चेतावनी

- यदि अद्यतन के दौरान पावर चली जाती है, तो होम थियेटर से USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें।
- यदि अद्यतन के दौरान त्रुटि उत्पन्न होती है, तो प्रक्रिया को पुनः करने का प्रयास करें। यदि त्रुटि पुनः उत्पन्न होती है, तो Philips उपभोक्ता सेवा पर संपर्क करें।